



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

4 श्रावण, 1940 (श०)

संख्या- 718 राँची, गुरुवार,

26 जुलाई, 2018 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

संकल्प

29 जून, 2018

संख्या-5/आरोप-1-114/2017-897 (HRMS)-- श्रीमती नमिता नलिनी बाखला, झा०प्र०से० के विरुद्ध सरकार द्वारा निम्नवत निर्णय लिए गए हैं:

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	NAMITA NALINI BAXLA BHR/BAS/3581	ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड के पत्रांक-1930, दिनांक 04.07.2017 द्वारा प्रपत्र- 'क' में प्रतिवेदित आरोपों से श्रीमती नमिता नलिनी बाखला को आरोप मुक्त किया जाता है ।

विवरण:

श्रीमती नमिता नलिनी बाखला झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-776/03, गृह जिला-गुमला), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बिशुनपुर, गढ़वा, के विरुद्ध ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड के पत्रांक-1930, दिनांक 4 जुलाई, 2017 द्वारा प्रपत्र- 'क' में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया, जिसमें इनके विरुद्ध उच्च अधिकारियों के निदेशों की अवहेलना करने, मनरेगा अन्तर्गत ससमय मजदूरों का भुगतान नहीं करने तथा महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की धारा-3(3) का उल्लंघन करने संबंधी आरोप प्रतिवेदित किये गये हैं ।

उक्त आरोपों हेतु विभागीय पत्रांक-9851, दिनांक 18 सितम्बर, 2017 एवं अनुवर्ती स्मार पत्रांक-11253, दिनांक 9 नवम्बर, 2017 द्वारा स्पष्टीकरण की माँग की गई ।

श्रीमती बाखला के आवेदन पत्र, दिनांक 20 नवम्बर, 2017 द्वारा सूचित किया गया कि इन्होंने बिशुनपुरा प्रखण्ड में कभी भी प्रभार नहीं लिया है ।

श्रीमती बाखला से प्राप्त पत्र के आलोक में विभागीय पत्रांक-574, दिनांक 18 जनवरी, 2018 द्वारा ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड से मंतव्य की माँग की गयी । ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड के पत्रांक-(N)622, दिनांक 16 मार्च, 2018 द्वारा उपलब्ध कराये गये मंतव्य में प्रतिवेदित किया गया है कि उक्त अवधि में श्रीमती बाखला द्वारा प्रखण्ड का प्रभार ग्रहण नहीं किया गया था ।

श्रीमती बाखला के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनके आवेदन पत्र एवं ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड के मंतव्य के समीक्षोपरांत श्रीमती नमिता नलिनी बाखला झा०प्र०से०, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बिशुनपुर, गढ़वा, सम्प्रति-निलंबित को आरोप मुक्त किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सूर्य प्रकाश,

सरकार के संयुक्त सचिव,

जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/2502
